



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 150] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1973/चैत्र 26, 1895

No. 150] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1973/CHAITRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th April 1973

**S.O. 229(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1973.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, the existing entry against Item No. 49 viz. "Superphosphate" and existing entry against Item No 73 viz. "All types of fertilisers not shown elsewhere in this Schedule" shall be deleted.

3. In Part 'A' of Schedule 1 to Exports (Control) Order, 1968 after Item No 39 the following item shall be added:—

"40. All types of fertilizers including superphosphate"

[No. E(C)O, 1968/AM(99).]

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.



## वाणिज्य मंत्रालय

## आदेश

## निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

एस० ओ० 229(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) नवां संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में मद संख्या 49 के सामने वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "सुपरफास्फेट" तथा मद संख्या 73 के सामने वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "सभी किस्म के उर्वरक जो इस अनुसूची में अन्य किसी भी स्थान पर नहीं दिखाए गए हैं" को हटाया जाएगा।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद संख्या 39 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"40. सुपरफास्फेट सहित सभी किस्म के उर्वरक।"

[संख्या ई(सी) ओ, 1968/ए एम (99)]

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।